

फ़ाइजर/बायोनटेक और मॉडर्ना के COVID-19 टीके: क्या इनके बीच कोई अंतर है?


7 जून 2021

फ़ाइजर/बायोनटेक और मॉडर्ना के COVID-19 टीके अनिवार्य रूप से समान हैं - ये दोनों बहुत प्रभावी हैं, बहुत सुरक्षित हैं, और इनका अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है।



मॉडर्ना और फ़ाइजर/बायोनटेक के टीके अनिवार्य रूप से अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए एक ही उत्पाद हैं।

यह बोटलबंद पानी के दो ब्रांडों की तरह हैं - एक ही उत्पाद, लेकिन अलग-अलग कंपनियों द्वारा पैक किए गए।



टीके एक ही तरह से काम करते हैं - यह दोनों mRNA टीके हैं।

यह दोनों आपके शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली को COVID-19 वायरस की पहचान करने के लिए निर्देश ("mRNA") प्रदान करते हैं, ताकि यदि भविष्य में असली वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर उसका सामना कर सके। टीकों में वायरस नहीं होता है।



दोनों टीके COVID-19 बीमारी से सुरक्षा करने में बहुत प्रभावी हैं।

बड़े आकार के वैज्ञानिक अध्ययनों में दोनों टीकों की दो खुराकों के बाद इन्हें COVID-19 बीमारी को रोकने में लगभग 95% प्रभावी पाया गया है।

अध्ययनों से पता चलता है कि यह दोनों टीके टीकाकृत व्यक्ति के संक्रमित होने की दुर्लभ घटना में COVID-19 के कारण अस्पताल में भर्ती किए जाने या मृत्यु के प्रकरणों की रोकथाम करने में बहुत प्रभावी हैं।



दोनों टीकों से एक-समान हल्के और अस्थायी पक्ष-प्रभाव होते हैं।

सबसे आम-तौर पर संभावित रूप से होने वाले पक्ष-प्रभावों में सुई लगाने के स्थान पर कंधे/बांह में पीड़ा, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, कंपकंपी, थकावट और बुखार महसूस होना शामिल हैं। यह पक्ष-प्रभाव आम-तौर पर लगभग एक से तीन दिनों में सुधर जाते हैं।

इन दोनों में से कोई भी टीका गर्भावस्था या आपकी गर्भधारण की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। इन दोनों में से किसी भी टीके के कारण खून के थक्के नहीं बनते हैं।

दोनों टीकों को ऊपरी बांह में सुई से लगाया जाता है - बहुत जल्दी और बहुत कम असुविधा के साथ। किसी एक टीके की तुलना में दूसरा टीका अधिक पीड़ादायक नहीं होता है।



उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण क्लिनिकों और स्थलों को इन दोनों में से कोई भी टीका प्राप्त हो सकता है।

कनाडा में प्राप्त होने वाली आपूर्तियाँ हर एक सप्ताह के लिए अलग-अलग हो सकती हैं।



फ़ाइजर/बायोनटेक और मॉडर्ना के टीके समान रूप से प्रभावी हैं। आपको जो भी प्रस्तुत किया जाए उसे लगवा लें, क्योंकि आपको पता है कि यह दोनों आपको और आपके प्रियजनों को COVID-19 से बीमार होने से सुरक्षित रखेंगे।

हमें उम्मीद है कि आपको यह बुलेटिन उपयोगी लगा होगा। हम आपको इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप इसे ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रिप्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। या दूसरों के साथ साझा करने के लिए इसे अधिक भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। कृपया स्रोत का श्रेय अवश्य दें : Women's College Hospital, OCASI, TAIBU Community Health Centre and Refugee 613.

7 जून 2021 तक सही

इस बुलेटिन की जानकारी कनाडा के इन डॉक्टरों द्वारा मान्य की गई है: Meb Rashid MD, Assistant Professor, University of Toronto; Vanessa Redditt, MD, Lecturer, University of Toronto; and Isaac I. Bogoch, MD, Associate Professor, University of Toronto

{ REFUGEE } 613

BEING GOOD HEALTH
TAIBU
COMMUNITY
HEALTH CENTRE

OCASI
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

WCH
WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL
Healthcare | REVOLUTIONIZED

Funded by:



Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Financé par :

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

With contributions from:

pchs
Serving Diverse Communities